

— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर ।

साइबर क्राइम सेल

दिनांक 13.07.2021

पैथोलॉजी में कार्यरत युवक से खून जाँच का एडवांस भूगतान के नाम पर गूगल पे के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करके खाते से निकाले गये 52002.00 रुपयों को साइबर क्राइम ब्रांच मीरजापुर द्वारा खाते में वापस कराया गया –

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13/05/2021 को शिकायतकर्ता श्री इन्द्रेश सिंह निवासी आवास विकास कालोनी, अनगढ रोड थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर द्वारा पुलिस कार्यालय मीरजापुर मे एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर वार्ता कर पैथोलॉजी में खून जाँच कराने को कहा गया तथा उक्त जाँच के एडवांस भूगतान के नाम पर गूगल पे के माध्यम से दिनांक- 12/05/2021 को धोखाधड़ी करके कुल 60000.00 रुपये निकाल लिया गया ।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल मीरजापुर द्वारा तत्काल शिकायत का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गयी । जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के खाते में कुल 52002.00 रुपये वापस कराया गया। शिकायतकर्ता श्री इन्द्रेश सिंह द्वारा मीरजापुर पुलिस तथा साइबर क्राइम टीम की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

साइबर क्राइम पुलिस टीम मीरजापुर-

1. उ0नि0 श्री राजेश जी चौबे प्रभारी साइबर क्राइम सेल मीरजापुर
2. आरक्षी गणेश प्रसाद गौड़ साइबर क्राइम सेल मीरजापुर
3. आरक्षी मो0 एहसान खाँ साइबर क्राइम सेल मीरजापुर

साइबर अपराध से बचाव/जागरूकता हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:-

1. किसी भी अनजान व्यक्ति को ओ0टी0पी0, डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड डिटेल एवं यूजर आईडी पासवर्ड शेयर न करें, चाहें वह बैंक कर्मी हो या ट्रेजरी आफिसर या अन्य कोई ।
2. कोई व्यक्ति यदि बातों-बातों में आपसे कोई रिमोट एक्सेस ऐप जैसे- क्वीक सपोर्ट , एनीडेक्स आदि डाउनलोड करने को कहे तो कदापि डाउनलोड न करें ।
3. विभिन्न माध्यमों जैसे- एस0एम0एस0, ई-मेल, व्हाट्सएप मैसेज आदि पर प्रसारित/प्राप्त हो रहे लिंक को न खोलें ।
4. किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर गूगल पर सर्च करके प्रयोग में न लायें । नम्बर प्राप्त करने हेतु उस कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाक्यूमेंट को देखे अथवा केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध नम्बर का प्रयोग करें ।
5. ए0टी0एम0 से पैसा निकालते समय ध्यान रखें कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका ए0टी0एम0 कार्ड बदल न पायें एवं पैसा निकालने से पूर्व उस मशीन में स्क्रीन एवं कैमरा आदि की जाँच कर लें ।
6. अपने मोबाइल को किसी अनजान व्यक्ति को कदापि न दें कभी-कभी गलत व्यक्तियों के हाथ में मोबाइल जाने से उसके द्वारा पोर्ट का मैसेज भेजकर पोर्ट आउट नम्बर प्राप्त कर लिया जाता है और आपके नम्बर की दूसरी सिम प्राप्त कर अवैध ट्रान्जेक्शन कर लिये जाते हैं ।